



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 28 जून, 2023

आषाढ़ 7, 1945 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

गृह (पुलिस) अनुभाग-9

संख्या 2983/छ:-पु०-9-23-20 (10) (16)-88 टीसी

लखनऊ, 28 जून, 2023

अधिसूचना

(शक्ति)

प०आ०-403

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1974) की धारा 21 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल महोदया, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों तथा सम्बन्धन प्राप्त निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के नियमित प्रशिक्षणार्थियों की राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित प्रयोगात्मक विषय की अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा, जुलाई 2023 (Annual System/Dual System of Training) हेतु प्रदेश के 75 जनपदों के राजकीय/निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के परीक्षा केन्द्रों के अधीक्षकों एवं प्रधानाचार्यों को दिनांक 3 जुलाई, 2023 से दिनांक 7 जुलाई, 2023 तक की अवधि के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त करती हैं, जो विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट के रूप में ज्ञात होंगे और उन्हें सम्बन्धित केन्द्रों, जिसके वे अधीक्षक एवं प्रधानाचार्य हैं, की सीमा के भीतर के क्षेत्रों के लिये कार्यपालक मजिस्ट्रेट की ऐसी सभी शक्तियाँ प्रदान करती हैं, जो उक्त संहिता के अधीन ऐसे कार्यपालक मजिस्ट्रेट को प्रदान की जा सकती हैं।

आज्ञा से,
डा० बी० डी० पॉल्सन,
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 2983/VI-P-9-23-20 (10)(16)-88 T.C., dated June 28, 2023 :

No. 2983/VI-P-9-23-20 (10)(16)-88 TC

Dated Lucknow, June 28, 2023

IN exercise of the power under section 21 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act no. 2 of 1974), the Governor is pleased to appoint with effect from date July 3, 2023 to July 7, 2023 all the Superintendents and Principals of the examination centres of State/Private Industrial Training Institutes of 75 districts of the State as Executive Magistrates for the practical examination of All India Trade Test, July 2023 (Annual System/Dual System of Training) for regular trainees of Government Industrial Training Institutes and affiliated Private Industrial Training Institutes, conducted by Rajya Vyavsayik Prashikshan Parishad, Uttar Pradesh to be known as Special Executive Magistrates and to confer on them all such powers of Executive Magistrates, for the areas within the limits of the respective centers of which they are Superintendents and Principals, which such Executive Magistrates have under the said Code.

By order,
Dr. B. D. PAULSON,
Sachiv.